



राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 1, सोमवार, शके 1941-सितम्बर 23, 2019  
Asvina 1, Monday, Saka 1941-September 23, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 09, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/9528** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Rajaldesar has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Rajaldesar. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Government.**

**कार्यालय नगरपालिका मण्डल राजलदेसर, चूरु (राज0)**

	प्रपत्र (क)
वार्ड सख्या	वार्ड सीमांकन
1	खसरा न 68 कालालों की खेड़ी से पश्चिमी साइड की पूरी नगरपालिका सीमा को लेकर दक्षिण अर्जुन मेघवाल की खेड़ी से पूर्वी तरफ रेल्वे लाइन से उतर की बस्ती पश्चिम पुलीया को शामिल कर माणकचन्द दुगड़ से पूर्व खसरा न 457 नगरपालिका भूमि की सम्पूर्ण बस्ती को शामिल कर रामनारायण सुथार के कारखाने तक से उतर हुलासाराम सुथार की खुली भूमि से पश्चिम उदयचन्द दर्जी से उतर पांचीलाल नाई के लड़के के मकान को शामिल कर पश्चिम फुसी देवी मेधववाल तक से उतर भानीराम प्रजापत को लेकर से उतर मे कोने के नोहरे से पश्चिम सोनी के मकान को शामिल कर सीधा रामकरण फोगला के नोहरे से NH 11 क्रॉस कर राजुसिंह की खेड़ी को शामिल कर सम्पूर्ण उतर सीमा को लेते हुए भानीराम प्रजापत की खेड़ी को लेते हुए उतर की समस्त न.पा. सीमा से सुआ मीणा की खेड़ी से छतरसिंह दुगड़ के मकान को शामिल कर सीधा वापिस कालालों की खेड़ी तक ।
2	सुरजाराम पांडर से पूर्वी साइड आलसर रास्ता की बायी साइड से पूर्वी तरफ

	<p>पुरणाराम प्रजापत पारिक बस्ती शामिल करते हुए परमेश्वर पारीक से पूर्वी तरफ हसराज पंवार पृथ्वीराज पंवार से सीधा उतर घुमकर भूरामल प्रजापत से उतर तुलछीराम प्रजापत से रामकुमार प्रजापत सुभास नाई से सडक 2 होते हुए अखारामजी की बगीची से दक्षिण मुडकर मिनालाल नाई से पूर्वी ओर उतरी ओर मुडकर धमण्डीराम नाई से दिपसिंह राजपूत से पश्चिम रा.प्रा. विधालय न 1 को शामिल कर उतर की तरफ जसकरण लोहमरोड से उतर सीधा रेल्वे लाइन बेनीवाल के मकान तक रेल्वे लाइन बाउन्ड्री से दक्षिण पश्चिम न.पा. सीमा से पश्चिम की ओर पूरी बस्ती को लेते हुए आसुराम रणवा से रामलाल गोमदराम बिजारणिया से आथुना न. पा. से वापिस सुरजाराम पांडर तक।</p>
3	<p>सागरमल प्रजापत से दक्षिण पुनमचन्द प्रजापत से पूर्वी तरफ जगदीश प्रजापत से पूर्वी ओर सुरजाराम गुरडा से पूर्व गोदारो के मकान को शामिल कर उतर भंवरसिंह दरोगा शिवलाल नाई से ओमप्रकाश माली से पश्चिम रामेश्वर लाल जाट से पश्चिम सीधा सागरमल प्रजापत तक।</p>
4	<p>मगाराम पांडर से दक्षिण बाडियों मे से होते हुए खेतो का रास्ता मोडिया धोरा से न.पा. सीमा को सम्मिलित करते हुए पूर्वी तरफ मुरलाई रास्ता के बीच से बायी तरफ की बस्ती अनाराम मेघवाल से पूर्वी सुरजाराम कडवासरा मुरलार्ड से पूर्वी तरफ थाना जी पुरोहित की चक्की से खेमराज पारीक से पूर्व माणक भार्गव से पूर्व पीथाराम जाट से उतर बांयी तरफ की बस्ती शामिल कर जालुराम प्रजापत से उतर लिच्छुराम नाई से फताराम गौरीशंकर बिजारणिया से प्रजापत धर्मशाला से कुम्हार कुआं से भंवरलाल सुथार से सीधा पश्चिम हरीराम की बगीची से सीधा आलसर रास्तामय मगाराम पांडर तक ।</p>
5	<p>डेडराज पुरोहित की बाडी से पश्चिम न.पा. सीमा को शामिल कर दक्षिण रास्ता जेगणिया से रास्ते की उतरादी साइड सें पूर्वी ओर रामेश्वर गोदारा से मगाराम मेघवाल से उतर हनुमान नाई से उतर बांयी तरफ की बस्ती को शामिल कर रायचन्द दरोगा से पश्चिम नथुराम जाट से पश्चिम लालचन्द कुचेरिया से गोविन्द पारीक की दुकान से पश्चिम सलाराम मेघवाल से गोरूजी लिछुराम मेघवाल से पश्चिम वापिस डेडराज पुरोहित की बाडी तक।</p>
6	<p>रामेश्वर पारीक की बाडी से न.पा. की पश्चिम सीमा से शामिल कर दक्षिण गैस एजेन्सी से दक्षिण न.पा. सीमा को लेते हुए दसुसर रास्ता क्रोस कर श्रवण जी अध्यापक की स्कुल को शामिल कर पूर्वी तरफ पांडे की बाडी की बस्ती को शामिल कर उतर में बुद्धनाथ सिद्व सीताराम पांडे की बाडी से उतर किसनराम मेंघवाल से उतर मगलराम मेघवाल बायी साइड की अबादी को शामिल कर</p>

	हडमान लिछुराम जाट जालुराम से पदमाराम मेघवाल तक मेघवाल गोगामेडी के पश्चिम मकान से उतर में सुखाराम सोनी का नोहरा झुमरजी बच्छराज नाई को शामिल कर उतर मे रामनारायण सोनी के मकान को शामिल कर पुरोहित की बगीची के आगे से सीधा पश्चिम जेगणिया रास्ता से बांयी तरफ की बस्ती शामिल कर वापिस रामेश्वर लाल की बाडी तक।
7	दस्सूसर रास्ता से अगुनी तरफ सडक से दक्षिण में तोलुराम मेघवाल का आथुणा मुख मकान शामिल कर सीधा दक्षिण मुलाराम मेघवाल से दक्षिण बाडिया से होते हुए न.पा. की सीमा को शामिल कर पूर्व तरफ शमसान रास्ते पर हनुमान प्याउ से पश्चिम से उतर चम्पालाल नाई से उतर गोगामेडी से पवन झेण्डू विजू नाई से पूर्वी ओर झेडू से पूर्व ओर बडियो का खुला नोहरा से उतर लिछुराम जालान सोहन जी पारीक से उतर पश्चिम चलते हुए बांयी तरफ के मकानो के लेते हुए नवरत्न दुदेदिया के मकान को शामिल कर पश्चिम सीधा चोरू राम.फोगला से दक्षिण फोगला भवन से दक्षिण देवीप्रसाद फोगला के पुराना मकान से केने को शामिल कर पूर्वी तरफ मुडकर फोगला के मकान को शामिल कर सीधा दक्षिण कोना के मकान से पश्चिम बांयी तरफ दर्जियो के मकान को शामिल कर पश्चिम सोहन मेघवाल से दक्षिण मांगीलाल जाट के बाडे से पश्चिम बांयी तरफ की बस्ती को लेते हुए वापिस तोलूराम मेघवाल साइड मकान तक।
8	पुनमचन्द हिरावत से दक्षिण नीम गटा से पश्चिम महादेवा नाई से दक्षिण चान्दमल नाई से पश्चिम खाकी धोरा को शामिल कर ठाकुरमल नाई से दक्षिण सीधा दस्सूसर रास्ते पर गोगामेडी से पूर्वी तरफ बाई तरफ की सम्पूर्ण बस्ती शामिल करते हुए बैजूलाल भार्गव से पूर्वी तरफ अमबालाल. भार्गव से पूर्वी तरफ बनवारी भार्गव से धीसाराम मेघवाल से लेकर उतर बुद्धमल से तेजकरण चण्डलिया से पश्चिम सिद्वो का बाड़ा से उतर खड़ग सिंह बैद से उतर आथुना बस स्टैण्ड पर शिवजी नाई.की चक्की छत्री के आगे से सीधा पुनमचन्द .हिरावत. तक।
9	शनिचर जी मंदिर से दक्षिण से हीराराम पांडर से कुमभाराम जाट मधाराम मेघवाल से पूर्व तरफ चन्द्राराम जाट से पूर्व जगदीश स्वामी से पूर्व से दक्षिण मुड कर मदन पांडे के नाहरे दक्षिण रामानन्द दर्जी से दक्षिण कोने पर नाई का मकान शामिल कर पूर्व तरफ रूडाराम नाई से पूर्व उतर की ओर पारीक की चक्की से पूर्व कोने पर डूगर दर्जी के मकान से उतर गोगामेडी मिलाकर सुरजमल बाठिया को शामिल कर आथुना बस स्टैंड से उतर देवीप्रसाद फोगला से उतर उदयचन्द सोनी से उतर सुनारो के मकान से पश्चिम बाठियों के मकान को

	शामिल कर मागीलाल घाडेवा से पश्चिमी तरफ नारायण सोनी से उतर तरफ शनिचर जी मंदिर से पश्चिम पतली गली में बांयी तरफ की बस्ती शामिल कर भूरजी सोनी धर्मशाला से पश्चिम बेगाराम प्रजापत भवानी सोनी से दक्षिण कोना पर प्रजापत मकान को शामिल कर हुलाशमल सोनी से चूनाराम जाट से सीधा शनिचर जी मंदिर तक।
10	मेहन्दी पुर बालाजी मंदिर धर्मशाला की उतरी कोने से मुंगीजाट से दक्षिण नारायण सिंह मास्टर को शामिल कर जानाराम जाट अमरूराम जाट से उतर गोरधनजी विष्णु स्वामी से पूर्व तोलजी नाई से पूर्व साइड पुराने नोहरे से पूर्व तरफ पतली गली से बांयी तरफ की बस्ती शामिल कर छापर रोड से उतर कोना पर सावरमल फोगला के मकान से उतर मे सीधा धनराज बैद के मकान को शामिल कर पश्चिम मे सीधा मेहन्दी पुर बालाजी मंदिर धर्मशाला तक।
11	मनफूल सिंह टाडी की खुली जमीन नोहरा से पूर्वी तरफ हनुमान पारीक से पूर्वी ओर सीधा मामता हैडलूम से पूर्वी ओर सूरजमल बैद के मकान छापर रोड से उतर विजयसिंह बैद का नोहरा से पूर्वी व उतर की ओर धनजी बैद के कमरे से सीधा पश्चिम आदर्श युवक संघ मनफूल टाडी से पश्चिम कमला मेघवाल से दक्षिण रा. प्रा. विधालय न 1 से दक्षिणी नानगराम टीकूराम माली से वापिस मालफूल टाडी तक।
12	गणेशाराम जाट से पूर्वी ओर गोशाला रोड खेमाराम जाट से पूर्वी ओर औसवाल पंचायत को शामिल कर हंसराज डागिया का सफेद नोहरा से उतर सीधा आंनदी मास्टर को शामिल कर पूर्वी ओर मुडकर खिवकरण बुचा को शामिल कर उतर डूगरमल नाई से नारायण सुथार से डूगरमल सुथार तक से पूर्वी ओर मांगीलाल प्रजापत से हेमराज सुथार से पूर्वी तरफ मुडकर नोरतनराम नाई. रामनारायण प्रजापत से उतर सुनारो की धर्मशाला से पश्चिम हजारी प्रजापत ख्याली राम नाई से पश्चिम हुलासाराम प्रजापत से श्रवण प्रजापत से पश्चिम होकर पूर्वी ओर मुडकर वापस गणेशाराम जाट।
13	माणकचन्द पनालाल नाई से दक्षिण सुनील कुमार सुथार राजकुमार प्रजापत की दुकान से पश्चिम पुनमचन्द सुथार दक्षिण मुडकर पदमाराम जाट होते हुए गिरधारी लाल सुथार तक पश्चिम मुडकर हंसराज डागिया के नोहरा से दक्षिण छत्रसिंह बैद नाईयो की छतरी व कोना पर जालानो की छतरी से दक्षिण चम्पालाल का नोहरा शामिल कर पूर्वी ओर मुडकर दुलीचन्द सोहनलाल बैद भागीरथ सोनी से पूर्वी सुनारो की भूमी से उतर दुलीचन्द गंगाराम सोनी कम्पाउडर मिरजामल गोशल कोना के मकान तक से पश्चिम मुडकर शुभकरण

	बैद के नोहरे को शामिल कर भीकमचन्द सुथार रामनिवास नाई से उतर जैसाराम प्रजापत से पश्चिमी रामलाल प्रजापत वापिस माणचन्द पन्नालाल नाई तक।
14	पन्ना लाल बैद के नए मकान से छापर रोड से दक्षिण से मंगतमल रामपाल पांडिया से अमोलक चन्द भोलाराम सोनी से पूर्वी पतली गली से बायी तरफ की बस्ती गोरधन मोची से जगदीश सोनी से दक्षिणी सोहन लाल सोनी से दक्षिण नेमीचन्द फोगला के नोहरे से पूर्व तरफ धनराज श्रीमाल के मकान से उतर की गली में द्ववारका प्रसाद फोगला से महेद्र पान वाले की दुकान से पूर्व चम्पालाल जालान के मकान से सोहनलाल जी कुडलिया से फूसराज तोदी से लालचन्द कच्छावा से उतर नन्दलाल लुहार बाबुलाल जालान से उतर से साधों का ठिकाना से पश्चिमी दुगड़ की हवली से बबुता बांस चुन्नीलाल घोषल से आशकरण बैद से उतर कोना पर डागा भवन से नाई की धर्मशाला से पश्चिमी छापर दक्षिणी होती ड्रुए विजयसिंह बैद के मकान से रामलाल देदानी बैद के मकान से वापसी पन्नालाल बैद के मकान तक।
15	धनराज श्रीमाल के सामने पूर्वी तरफ कोना के पुराने मकान मोहनलाल दुदेरिया तिलोकचन्द से दक्षिणी आसकरण सेवक से दक्षिणी कन्हैलाल दुगड़ से राजकरण विनायकिया से दक्षिण अमर चन्द दर्जी होते हुए जुगराज पांडे से पश्चिम गणेश मंदिर शामिल कर ओम प्रकाश लीलडिया से गोपाल मारू के मकान से मदन जी पांडे से दक्षिणी सोहनलाल नाई से कन्हैयालाल दर्जी झेण्डू से फतेहचन्द दुधोडिया के मकान से दक्षिण भूतनाथ बगीची शमसान शामिल कर दक्षिणी तरफ की न.पा. सीमा से पूर्वी तरफ गोशला से सीधा बनेचन्द सेवग की बाड़ी की पूर्वी वाली बस्तीशामिल कर समस्त बांडियो को शामिल कर मदन जी माली से उतर लुणासर रास्ता से अर्जुनसिंह राजपूत से उतर पानी प्लांट से उतर भाटीया भवन से रामकुमार सुथार का मकान मलासी थान से बाबुलाल जाट से पीरसिंह राजपूत टेलर से महेश पांडे से न. पा. की मालासी बाड़ी गोगामेडी शामिल कर पृथ्वीराज लालचन्द पांडे से बट्टीप्रसाद पांडे गोमजी फोगला से पश्चिमी लाल चन्द कुडलिया से पून जी डागा से कन्हैयालाल दुगड़ से मोहन लाल दुदेरिया से वापिस कोने के मकान तक।
16	बाजोरिया भवन से पश्चिम तने खां लखारा की दुकान से मालचन्द खेमचन्द बरडिया दुकाने मकान को लेते हुए सेवक बस्ती के मकानो को शामिल कर हुलासमल जालान की दुकान से नोरगराम फोगला की दुकान से दक्षिणी माता जी से सीधा धनजी श्रीमाल के सामने सेवगों के मकान से पूर्व विजय दुदेरिया से अम्बालाल दाधिच से छोटुलाल पांडे तक दक्षिण मुड रा. उ.प्रा. विधालय पोदार

	<p>भवन से पोदार कुआ शामिल कर लुणासर रोड पर किशनलाल पांडे के मकान से दक्षिणी पवन बोथरा कुआ से पूर्वी तरफ से उतर चम्पालाल की बाडी को छोडते हुए उतर में मुन्नीराम सुथार परमाराम सुथार से धनजी कुडलिया से बृज पांडे सोहनलाल जाट रामेश्वर भीवाराम कच्छावा दधिमती आश्रम को शामिल कर रमजान छीपा से उतर दिनजी छीपा की उतर कोना रामलाल जालान के नोहरे से पश्चिमी मोहन जी कच्छावा लादसरीया भवन तक व दक्षिण चलकर BOB से वापिस बाजोरिया भवन।</p>
17	<p>थानमल माली से दक्षिण भंवरलाल माली से हाई स्कूल की पश्चिम दक्षिण कोने से पश्चिम माणकचन्द बाबुलाल चोरडिया से दक्षिण फ्रेण्ड सोसायटी रोड मोती कुकरा से पश्चिम दीपचन्द कुण्डिया से दक्षिण गंगाराम जी कम्पाउडर के सामने जयचन्द कुण्डलिया से हुकमाराम जाट व शशुभकरण भंवरलाल दुगड से पूर्व छोटूलाल पांडे PCO से बस स्टैंड सुभाश चौक से शिवालय से पूर्व तरफ ओमप्रकाश दाधिच से पुराना पो. ऑफीस घासीराम नाई से पूर्व तरफ दरामाराम की चक्की से पूर्व नत्थमल प्रजापत से कोने पर मोचियो का खुला बाडा से उतर पश्चिम धनाराम प्रजापत से पश्चिम सुरजराम कठोड से ईस्मालइ तेली की घाणी से पश्चिम उतर नत्थमल सेठी की दुकान प्रतापमल बोथरा के नोहरे से राजकीय चिकित्सालय हाई स्कूल इन्द्रचन्द बैद की धर्मशाला पूर्व रेल्वे फाटक से पश्चिम से सीधा थानमल माली के मकान तक।</p>
18	<p>केसराराम माली के मकान से पूर्वी उतरी तरफ मुड पूर्व मुख खुलने वाले सम्पूर्ण मकान कोडाराम माली तुलछाराम माली से ईश्वर सिंह तक एवं पश्चिम की ओर उतर की तरफ खुलने वाले मकान सोनी से अमरचन्द व्यापारी की कोना तक एवं उतरी कोना पर स्वामीयो के नोहरे से पूर्वी तरफ पाचीलाल माली से गणेश अग्रवाल से उतर सीमा से उतर सीधा मोहन महावर हनुमान माली से मोचियो के मंदिर से नन्दलाल बजरग लाल खडोलिया से पश्चिम रेल्वे लाइन से दक्षिण तरफ मोटाराम अग्रवाल से दक्षिण पटवार घर से बैद बाबूलाल शर्मा से गोपाल शर्मा तक एवं पूर्व में बायी तरफ की पूरी बस्ती लेते हुए यासीन व्यापारी से सीधा वापिस स्वामियो के नोहरे तक।</p>
19	<p>रेवतमल बुच्चा से दक्षिण ईश्वर राम नत्थूराम माली को शामिल कर पूर्व तरफ निवासियो को लेकर हनुमान पारीक की दुकान से उतर सम्पूर्ण पश्चिम मुख मकानो को शामिल करते हुए हनुमान की दुकान से उतर लाटा की स्कूल से कोना सतार बेहलीम व्यापारी से पश्चिम हुसैन खां आमीन चेजारा लालमोहम्मद छीपा होते हुए रेवतमल बुच्चा तक ।</p>

20	दुलीचन्द गिडिया के मकान से दक्षिण कन्हैयालाल बैद के मकान से पूर्वी ओर गोगामेडी शामिल कर उतर से पूर्व मे चलकर मदनजी नबाब के मकान से मीणो की पतली गली की बांयी साइड केसराराम खटीक से खटीको के चौक मे सफी बगड के मकान को शामिल कर उतर भवगवानराम गजानन्द खटीक से गन्नीखां बगड होते हुए उतर से कोना पर फकीर मो. खत्री के मकान से पश्चिम मस्जिद को शामिल कर इमामबाडा से यासीन बगड से गुलाब काजी से पश्चिम फूसराज तोडी के नोहरे से पश्चिम वापिस दुलीचन्द गिडिया के मकान तक।
21	मुरलीधर पुनमचन्द दाधिच के मकान से दक्षिण चन्दनमल प्रजापत के मकान व दुकानो को शामिल कर पूर्वी तरफ भावनदेसर रास्ता पर बांयी तरफ दानाराम सोनी से लुहार कामड नायक बस्ती को शामिल कर भंवरलाल सावरमल मेघवाल के मकान को शामिल कर इब्राहिम मणियार से पूर्व कासम जाफर खत्री के मकान को शामिल कर नूरजी धोबी के मकान को शामिल कर गजानन्द खटीक के मकान को शामिल कर पश्चिम उमराराम मागीलाल खटीक से भंवरलाल मीणा के मकान को शामिल कर बांयी तरफ की मीणा बस्ती शामिल कर पश्चिम की तरफ ओमप्रकाश सोनी सत्यनारायण सोनी से रामलाल सोनी को शामिल कर वापिस पश्चिम में मुरलीधर दाधिच तक।
22	सोहनलाल अग्रवाल के मकान से दक्षिण लूणासर रोड पर गनीखां छींपा आदम छींपा मस्जिद से दधिमती आश्रम के सामने कोने पर खाली नोहरा बाजोरिया को शामिल कर अगुणे में कोने पर नगजी छीपा से दक्षिण पाबूजी थान को शामिल कर रामेश्वर अशोक कच्छावा से दक्षिण अर्जुन भामू के मकान तक अगुणा तरफ छीपा के कारखानो को लेकर अगुना तरफ आगनबाडी के सामने पश्चिम कोने पर सालीम छीपा के मकान से उतर चलकर दानाराम मेघवाल से रामनारायण रेगर भागीरथ रेगर से मालीलाल रेगर के मकान से उतर चौक के बीचो बीच ख्याली रेगर चक्की दुकान को शामिल कर उतर मे रेगरों की पतली गली मे श्योलाराम रेगर से कोना पर कुनणमल शर्मा (मिर्चीवाला) शामिल कर पश्चिम सत्यनारायण दायमा को शामिल कर पूर्व सीधा सोहनलाल अग्रवाल तक ।
23	लूणासर रोड पर लाधुराम सुथार के बाडे से दक्षिण बंजरगलाल सुथार से पुनमचन्द सुथार से कमलजी पांडे के मकान कोशामिल कर प्रभुराम सुथार को शामिल कर किशनाराम जाट से किशोर सिंह के पत्थर पटी बाडा से दक्षिण नन्दलाल माली देवाराम माली से सम्पूर्ण न. पा. की दक्षिण सीमा से सम्पूर्ण बुधमल माली का शामिल कर उतर मे बाडियों मे से होकर मगलाराम गिवारिया के सामने रास्ते की बायी तरफ की बस्ती को शामिल कर सीधा श्रवण खारडिया

	से अकूडाराम मेघवाल से हरीजन शमसान से बायी तरफ बिजू हरीजन से रा.उ. प्रा. विधालय न 3 से दक्षिण रास्ते पर हरिजन की दुकान से पश्चिम ठाकुरमल मेघवाल की दुकान मकान से कच्छावो की चक्की से सीधा चम्पालाल पांडे की बाडी से उतर पश्चिम कोने से दक्षिण चलकर खाली प्लाट से बायी तरफ से पवन बोथरा के मकान को शामिल कर पश्चिम लूणासर रोड पर लाधुराम सूथार के बाडे तक ।
24	दीना रेगर प्रेमराम रेगर से दक्षिण पतली गली पूर्व तरफ एव दक्षिण में मुडकर रेगर चौक के बीच से बायी तरफ फारूक छीपा से दक्षिण मन्नालाल रेगर से दक्षिण मे भंवरलाल रेगर से छीपो की बायी तरफ के मकान शामिल कर दक्षिण मे आगनबाडी से पूर्व सामुदायिक भवन से रेगर का कुआ रा. उच्च. प्रा. विधालय 3 से मगदास की बगीची से बाबूलाल हरीजन से लालचन्द शिवलाल हरीजन से उतर चलकर बायी साइड के समस्त मकान शामिल कर पूर्व में लालचन्द नायक से कोने पर डूगरमल हरीजन से उतर मुलाराम मेघवाल से उतर से ईस्माइल धोबी से पश्चिम आरीफ की चक्की से मेघवाल गोगामेडी से पश्चिम अयब बगड के मकान से पश्चिम मूलाराम रेगर से सीधा दीना रेगर के मकान तक।
25	मगदास की बगीची से दक्षिण पीपल गटटा से राजू हरिजन बनारसी देवी से दक्षिण हरिजन की शमशान के पश्चिम कोना से दक्षिण से सीधा शमशान को शामिल कर सीधा दक्षिण मगलाराम गिवारिया से दक्षिण सम्पूर्ण न. पा. आबादी सम्मलित करते हुए पूर्व की तरफ समस्त भाटी परिवार को सम्मलित कर उतर की ओर रेगर की बाडी मे से होकर रमेश पन्नालाल व बाबूलाल को सम्मलित करते हुए फकीरचन्द कोना के मकान से पश्चिम हरिजन कुआ से दक्षिण तरफ बायी तरफ की बस्ती को शामिल कर चेतन हरिजन से पश्चिम गोगामेडी से सीधा कोने पर राजू हरीजन तक।
26	मेधवाल कुए के सामने विष्णु हरिजन के माकान से दक्षिण राजू हरिजन के मकान से पश्चिम बाबूलाल समुदायिक भवन को शामिल कर पश्चिम से दक्षिण पपूराम की बायी साइड की बस्ती को शामिल कर शिवलाल के सामने कोना पर खाली प्लाट रतनलाल से पूर्व होकर हरीजन कुआ से संजय पुराना मकान विनोद लाल चन्द से दक्षिण रेगर की बाडी में दूरगाराम कामड से सीधा दक्षिण न.पा. सीमा को लेते हुए बुधाराम मेहरडा से पूर्वी तरफ से जयपालो के भवन को शामिल करते हुए सोहनराम पूनमचन्द मेघवाल एव न.पा.की दक्षिण सीमा को सम्मलित करते हुए मदन सावरमल को शामिल समस्त न.पा. सीमा खेडिया बाडियो से पूर्व तरफ मदन रेगर फूसी मेघवाल व भोजाराम मेघवाल की ढाणियो को शामिल

	करते हुए पूर्व ओर न.पा. की सीमा को लेकर पश्चिम ओर भगवानाराम मेघवाल के मकान से दीपचन्द्र मेघवाल के मकान से पश्चिम सहीराम मेघवाल के मकान को शामिल कर भवरलाल मेघवाल के मकान तक पश्चिम में भावनदेसर रोड क्रॉस कर बायीं साइड से गणेशाराम के खाली प्लॉट से सम्पूर्ण मकान बस्ती को शामिल कर भागूराम बिजूराम नायक मकान से बाबूलाल भोपे के मकान से सम्पूर्ण साटिया बस्ती को शामिल कर राधेश्याम हरिजन से वापिस विष्णु पप्पु हरिजन के मकान तक।
27	सलीम धोबी से दक्षिण सागरमल के मकान से पश्चिम चोखराम मेघवाल से पूर्व भवरलाल मेघवाल की दुकान से दक्षिण जीवणराम नायक से दक्षिण नत्थूराम मेघवाल से ख्यालीराम मेघवाल के मकान व दुकान से पूर्व मागीलाल जानाराम मेघवाल से सीधा मूलाराम भवरलाल के मकान से दक्षिण पूर्व साइड की न.पा. तरफ सीमा एवं पूर्व में बसी हुई ढानियों को शामिल कर पूर्व की तरफ न.पा. सीमा से देवाराम टीडाराम मेघवाल से पश्चिम से दूलाराम मेघवाल से कोजाराम मेघवाल से पश्चिम रफीक व्यापारी ईकबाल सतार मकान को शामिल कर कालूजी व्यापारी मोहनलाल मेघवाल से सीधा सलीम धोबी के मकान तक।
28	बगसू व्यापारी के मकान से दक्षिण सीधा आरीफ बगड से नानूराम एवं सुनिया तक पूर्व में धोबीयाना मस्जिद को लेकर धोबियों के मदरसा तक दक्षिण में बाबूलाल धोबी से दक्षिण मेघवाल कुआ से पूर्व पन्नाराम मेघवाल से पूर्व खंगजी के सामने कोने पर जूमरदीन धोबी मकान से बायीं तरफ इकबाल तवंर के मकान तक पूर्व तरफ बायीं तरफ की आबादी को लेकर युसुफ जबार खत्री के मकान से पूर्व मो. हुसैन बगड के नोहरो को शामिल कर पूर्वी में गुलाब खत्री की खेड़ी में रास्ते में बायीं तरफ बसे सतार के सामने जबार गुलाब खोखर से इलियास तवंर से पूर्व तरफ की न. पा. आबादी में अयूब जी के मकान को उस्मान व्यापारी के लडको जावेद तवंर के मकान को शामिल कर पूरी नाथ जी की खेड़ी व भाटी खेड़ी को शामिल कर न. पा. आबादी से बाड़ियों में से उतर की ओर पूर्वी सीमा से पश्चिम की तरफ कब्रिस्तान के दक्षिण तरफ रास्ते से बायीं साइड बसी हुई अली मो. काजी से आगे शमसु खत्री के मकान से आबादी को लेकर भीखम तेली के मकान से इब्राहिम खत्री से भूरसिंह महावीर सिंह भाटी से पश्चिम से दक्षिण में बायीं तरफ मोहन आदि नायको शामिल कर पश्चिम की ओर चन्द्राराम खटीक से खटीक कुआ से बगसू व्यापारी तक।
29	नानूराम प्रजापत के मकान से पश्चिम जयचन्द्र दायमा मास्टर से उतर रामेश्वर पारीक व मघा दर्जी से पश्चिम भवरलाल शर्मा के पुराने मकान को शामिल कर

	रा.प्रा. विधालय 4 से दक्षिणी पेपसीन के मकान शामिल कर केसरराम माली चक्की से दक्षिण पश्चिम मुडकर मोची के कोने से कालू सब्जी फरोश से पूर्वी तरफ गनी खां के मकान को शामिल करे दक्षिण में कोना पर मोची के मकान को शामिल कर अनबर हनीफ तवंर सलीम काजी से लालचन्द खटीक से बक्स मो. के सामने कोने पर खटीको के मकान से पूर्व बेगा राम खटीक से उतर से शांति मीणा होली धोरा मकान से जलदाय विभाग कार्यालय को शामिल कर पश्चिम नत्थु खां काजी से उतर सरीफ बिसायती से उतर फजुदीन नानू खां बिसायती से वापिस नानूराम प्रजापत तक।
30	गोमजीमाली की चक्की से पूर्वी तरफ कब्रिस्तान शामिल कर न.पा. की पूर्वी आबादी सीमा शामिल कर उतर से रेलवे बाउन्ड्री की दक्षिण तरफ से पश्चिम मुमताज काजी मास्टर से दक्षिणी संतोषी माता मन्दिर को बायी बस्ती से इन्द्र चन्द प्रजापत के नोहरा को शामिल कर नानग जी होते हुए गोमजी माली की चक्की तक।
31	भवरू खां धोबी से दक्षिण करीम बक्स गफूर दीन अनवर बिसायती से नब्बू दीन व्यापारी तक पूर्व तरफ नाथ जी खेडी कुआ को शामिल कर मुनेश मीणा तक उतर में पीरा जाट तक पूर्व में मुडकर संतोषी माता के मंदिर का छोड कर उतर की तरफ गली मुमताज मास्टर से पश्चिम रेलवे बाउण्ड्री से दक्षिण भजनलाल मीणा को शामिल कर पश्चिम तरफ बायी तरफ की बस्ती ईश्वरराम प्रजापत हुकमाराम जाट बीरडा से सीधा पश्चिम भवरू खां धोबी तक।
32	उतरी साइड की नगरपालिका सम्पूर्ण सीमा से दक्षिण आबडसर रास्ते से nh 11 से दक्षिणी बनवारी लाल माली से नागरमल जी कठौड के मकान को शामिल कर पश्चिम मुडकर पूर्वी रेलवे फाटक से दक्षिण से पूर्वी ओर रेलवे क्वाटर को शामिल कर लाल कुआ बाडी को शामिल कर दक्षिण घीसाराम माली से मोटाराम माली के कोने तक से पूर्वी तरफ बायी तरफ की आबादी शामिल कर सीताराम सोनी से दक्षिण रामेश्वर ठेकेदार के सामने पूर्वी तरफ कोने पर दीपाराम जाट से पूर्व ओर मुडकर लुणाराम जाट के मकान से उतर तोलुराम प्रजापत सोहन खाटीवाल से उतर पूर्वी तरफ राजाणा बाल मंदिर से रामसिंह दरोगा से पूर्व तरफ खीवाराम माली से सीधा सजनलाल मीणा के सामने बुद्धमल प्रजापत की गली से उतर वाली रेलवे बाउंड्री को क्रोस कर नगरपालिका पूर्वी सीमा शामिल कर उतर की मुडकर उतराधी न.पा. सीमा से वापस आबडसर रास्ते पर।
33	नगरपालिका के उतरी सीमा से वन विभाग से दक्षिणी NH 11 क्रोस कर थाना रोड से बायी बस्ती समाज कल्याण विभाग से कुन्दनलाल दाधिच से दक्षिण से

	<p>रामकुमार प्रजापत से दक्षिण रामचन्द्र प्रजापत से पूर्वी की ओर रेलवे लाइन से उतर की सम्पूर्ण बस्ती लेकर पुराना नाम बाजोरियो के नोहरे को लेकर उतर की तरफ सम्पूर्ण ढोली शामिल कर बायी साइड से शमसान को शामिल कर उतर मे NH 11 क्रोस कर वापस वन विभाग तक एवं इस सीमा की ओर राजलदेसर की रोही ढानियो में रहने वाले बस्ती को शामिल किया जावे।</p>
34	<p>सुमेरमल नाई से दक्षिण आंनदीलाल माली कन्हैयालाल सैनी केना के मकान तक से पूर्वी कोने पर रावताराम माली के लडके के मकान के दक्षिणी नोहरे तक से पूर्वी ओर रामचन्द्र प्रजापत का बाडा किशनलाल प्रजापत की गोदाम से बाडा से दक्षिण रेलवे लाइन क्रोस व प्रजापत हनुमान मंदिर से दक्षिणी मिनालाल जालुराम प्रजापत से सागरमल प्रजापत से दक्षिणी पुरानी माउन्टेनसरी तक से पूर्व फ्रेड सोसायटी रोड पर जगतसिंह बेगवानी. से उतर चोखाराम प्रजापत का पुराना मकान तक से पूर्व भीकमचन्द ईन्द्राजमल बैद पुरानी बाल भारती से उतर भूरमल प्रजापत से उतर गणेशदास स्वामी से धनाराम माली तक से पश्चिम से मालाराम प्रजापत से उतर मुड कर पश्चिम फाटक से थाना रोड की बायी तरफ इन्द्रचन्द विजयसिंह प्रजापत को शामिल कर सीधा भवरलाल प्रजापत तक व पश्चिम मुडकर सुनारो का माता जी मंदिर शामिल कर सीधा पश्चिम फ्रेड सोसायटी रोड क्रोस कर भारती विधापीठ को शामिल कर पोल फैक्ट्री शामिल कर दक्षिण पश्चिम होती हुये वापस सुरमेमल नाई तक।</p>
35	<p>न.पा की उतरी सीमा खसरा न. 134 भीमसिंह की खेड़ी की पश्चिमी उतरी कोना से दक्षिणी मोहनसिंह बिका कारखाना को शामिल कर हाइवे क्रोस कर दक्षिण मुडकर प्रेमनाथ सिद्ध के मोटर साइकल ऐजेन्सी से पश्चिमी सुगनाथ सिद्ध की खुली भूमि नोहरा शामिल कर दक्षिण मुडकर कोने की भूमि को शामिल कर पूर्वी ओर मुडकर बीरदीचन्द प्रजापत को शामिल कर दक्षिण मुडकर घासीराम प्रजापत से पूर्वी ओर चलकर सरोज माली शामिल कर दक्षिण कोना के मकान दक्षिण मुडकर इन्द्र चन्द जाट से दक्षिण से ब्राहमण के नोहरे से पूर्वी ओर मुडकर दक्षिण होते हुए इन्द्रचन्द महावीर शर्मा को शामिल कर दक्षिण पर पाचीलाल नाई के लडको को शामिल कर सत्यनारायण सुथार के कारखाने सके सामने से पूर्वी ओर रेलवे लाइन से उतर की बस्ती को लेते हुए केना पर नोहरो के लेकर उतर मे मागीलाल प्रजापत से माली का मकान शामिल पश्चिम मुडकर भगवान दास स्वामी के मकान से उतर हिम्मत सिंह राजपूत मोहन लाल प्रजापत टावर श्रवण सिंह राजपूत के नोहरे से पूर्व मुडकर चन्दनमल सोनी से पूर्वी ओर जगदीस माली से सीधा पूर्वी ओर स्टेडियम की दक्षिणी</p> <p>पूर्वी कोना से उतर NH 11 क्रोस कर उतर मे भवरलाल जाट की खेड़ी को शामिल</p>

	कर पुरनाराम माली की खेडी को शामिल कर उतरी न.पा. सीमा लेकर वापिस भीमसिंह की खेडी तक
--	--

अधिशाषी अधिकारी  
नगरपालिका राजलदेसर

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।